

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं. 52] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 26, 2015—जनवरी 1, 2016 (पौष 5, 1937)

No. 52] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 26, 2015—JANUARY 1, 2016 (PAUSA 5, 1937)

---

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

---

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और  
अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public  
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the  
Government of India]

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली—110023, दिनांक 23 अक्टूबर 2015

सं. 2/1/15—प्रशासन/298230—केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा श्री हेमंत कुमार, आई.आर.एस.एस., रेल मंत्रालय को आयोग में मुख्य तकनीकी परीक्षक के पद पर वेतन बैंड—4(रु. 37400—67000/—) में ग्रेड वेतन 10000/— के साथ प्रतिनियुक्ति आधार पर दिनांक 19.10.2015 (पूर्वाह्न) से पांच वर्षों की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

अशोक कुमार नाकरा  
निदेशक (प्रशासन)  
कृते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

नई दिल्ली—110023, दिनांक 3 दिसम्बर 2015

सं. 2/1/15—प्रशासन/301273—केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा श्री आदित्य जोशी, आई.आर.एस.एस.(1995) को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति आधार पर आयोग में निदेशक के पद पर वेतन बैंड रु. 37400—67000/— में ग्रेड वेतन 8700/— के साथ शिफ्ट आधार

पर दिनांक 13 नवम्बर, 2015 (पूर्वाह्न) से 06.11.2018 तक की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

पी.के. महान्ती  
अवर सचिव (प्रशासन)  
कृते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

गृह मंत्रालय  
सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी  
हैदराबाद-500 052, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

सं. 15011/5/2015-स्था.—गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. I-21015/07/2015 भा.पु.से. III दिनांक 05 नवम्बर, 2015 के अनुसरण में दिनांक 27 नवम्बर, 2015 के मध्याह्न से श्रीमती वीना भारती, भा.पु.से. (हिमाचल प्रदेश-2007) को स.व.प. राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में सहायक निदेशक के पद पर पे-बैंड-3 रुपए 15,600-39,100/- सहित ग्रेड-पे रुपए 7,600/- पर प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों के आधार पर 4 साल या अगला आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले लागू हो नियुक्त किया जाता है। अधिकारी समय-समय पर जारी भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार उक्त पद के वेतन एवं भत्तों के हकदार होंगे।

अरुणा बहुगुणा  
निदेशक

महानिदेशालय  
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल  
नई दिल्ली-110003, दिनांक 9 दिसम्बर 2015

सं. ई : 16013/एके/2010/कार्मिक-2/15 / 1615—गृह मंत्रालय पत्र सं० I-21016/39/2010-भा.पु.से.।।। दिनांक 29.11.2010 के अनुसरण में प्रतिनियुक्ति से मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तन होने पर, श्री अजय कुमार, भा०पु०से० (प०ब० 1993) ने दिनांक 07/12/2015 (अपराह्न) को उप महानिरीक्षक, के०सु०ब, उत्तर पूर्वी क्षेत्र मुख्यालय कोलकाता का पदभार छोड़ दिया।

ह./— अपठनीय  
महानिदेशक/के०सु०ब

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग  
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), पश्चिम बंगाल  
कोलकाता- 700001, दिनांक 14 अगस्त 2015

सं. प्रशा.1/1034-33/2015-16/131—महालेखाकार (लेखा & हक), पश्चिम बंगाल के दिनांकित 14/08/2015 के आदेशानुसार श्री कालीचरण बिरुआ, वरिष्ठ लेखाकार तथा श्री सिकंदर केराए, वरिष्ठ लेखाकार जिन्होंने क्रमशः मार्च, 2013 एवं, अगस्त, 2013 की एसएस परीक्षा उत्तीर्ण की है को दिनांक 17/08/2015 (पूर्वाह्न) या उनके कार्यग्रहण करने की दिनांक, जो भी बाद में हो, से वेतन बैंड-2 (रु. 9300-34800/-) प्लस ग्रेड वेतन रु 4800/- प्रतिमाह पर सहायक लेखा अधिकारी के कांडर में पदोन्नीत किया गया है।

तैनाती आदेश अलग से जारी किया जाएगा।

मुकुट मुखर्जी  
उप महालेखाकार (प्रशासन)

दिनांक 27 अगस्त 2015

सं. प्रशा. 1/1038-XXVIII/2015-16/152—महालेखाकार (लेखा एवं हक.), पश्चिम बंगाल ने सहर्ष श्री इमेनुयल एक्का, सहायक लेखा अधिकारी को दिनांक 01.09.2015 (पूर्वाह्न) के प्रभाव या उनके कार्यग्रहण करने के दिन से, जो भी बाद में हो, से वेतन बैंड रु. 9300-34800/- तथा ग्रेड वेतन रु. 5400/- में लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नीत किया है

[प्राधिकारी : महालेखाकार का आदेश, दिनांक 26.08.2015]

मुकुट मुखर्जी  
उप महालेखाकार (प्रशासन)

दिनांक 31 अगस्त 2015

सं. प्रशासन 1/1034-XXXIII/2015-16/155—महालेखाकार (लेखा एवं हक), पश्चिम बंगाल के दिनांकित 28/08/2015 के आदेशानुसार श्री सुभाशीष बंधोपाध्याय, एसएस (अगस्त, 2014) परीक्षा उत्तीर्ण डीएओ ग्रेड-II को दिनांक 01/09/2015 (पूर्वाह्न) के प्रभाव या उनके कार्यग्रहण करने के दिन से, जो भी बाद में हो, से वेतन बैंड रु. 9300—34800/— तथा ग्रेड वेतन रु 4800/— में सहायक लेखा अधिकारी के काडर में पदोन्नीत किया गया है ।

तैनाती आदेश अलग से जारी किया जाएगा ।

मुकुट मुखर्जी  
उप महालेखाकार ( प्रशासन )

वस्त्र मंत्रालय

(हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय)

नई दिल्ली, दिनांक 14 अगस्त 2015

सं. ए-11025/1/2014-डीसीएचएल/स्था-II—राष्ट्रपति, श्री अशोक कुमार सिंह को 5 अगस्त, 2015 (पूर्वाह्न) से भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, वाराणसी में अगले आदेशों तक 15600—39100/— रुपये (पे बैंड-3) + ग्रेड पे 5400/— रुपये के वेतनमान में वरिष्ठ प्रवक्ता (वस्त्र) के पद पर नियुक्त करते हैं ।

राजेश कुमार साहू  
अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

सं. ए-11025/2/2014-डीसीएचएल/स्था-II—राष्ट्रपति, श्री आशीष नारायण बैनर्जी को 6 अगस्त, 2015 (अपराह्न) से भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी में अगले आदेशों तक 15600—39100/— रुपये (पे बैंड-3) + ग्रेड पे 5400/— रुपये के वेतनमान में वरिष्ठ प्रवक्ता (वस्त्र प्रसंस्करण) के पद पर नियुक्त करते हैं ।

राजेश कुमार साहू  
अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

दिनांक 4 सितम्बर 2015

सं. ए-11025/1/2014-डीसीएचएल/स्था-II—राष्ट्रपति, श्री वी. शिवकुमार को 27 अगस्त, 2015 (पूर्वाह्न) से भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, फूलिया कॉलोनी, नाडिया (पश्चिम बंगाल) में अगले आदेशों तक 15600—39100/— रुपये (पे बैंड-3) + ग्रेड पे 5400/— रुपये के वेतनमान में वरिष्ठ प्रवक्ता(वस्त्र प्रसंस्करण) के पद पर नियुक्त करते हैं ।

राजेश कुमार साहू  
अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

दिनांक 5 अक्टूबर 2015

सं. ए-23023/6/2014-डीसीएचएल/स्था-II—राष्ट्रपति, श्री सी. राजशेकरन को बुनकर सेवा केन्द्र, इम्फाल में दिनांक 17 सितम्बर, 2015 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक के लिये 15600—39100/— रुपये (पे बैंड-3) + ग्रेड पे 5400/— रुपये के वेतनमान में सहायक निदेशक ग्रेड-I (डिजाइन) के पद पर पदोन्नत करते हैं ।

राजेश कुमार साहू  
अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

सं. ए-23023/7/2014-डीसीएचएल/स्था-II—राष्ट्रपति, श्री विशेष नौटियाल को बुनकर सेवा केन्द्र, चेन्नई में दिनांक 1 अक्टूबर, 2015 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक के लिये 15600—39100/— रुपये (पे बैंड-3) + ग्रेड पे 7600/— रुपये के वेतनमान में निदेशक के पद पर पदोन्नत करते हैं ।

राजेश कुमार साहू  
अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

दिनांक 27 अक्टूबर 2015

सं. ए-23023/1/2014-डीसीएचएल/स्था-II—राष्ट्रपति, श्री बाबुल चंद्र दास को 19 अक्टूबर 2015 (पूर्वाह्न) से भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी में अगले आदेशों तक 9300-34800 रुपये (पे बैंड-2) + ग्रेड पे 4600/- रुपये के वेतनमान में सहायक निदेशक ग्रेड-II (गैर-तकनीकी) के पद पर नियुक्त करते हैं।

राजेश कुमार साहू  
अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

दिनांक 4 नवंबर 2015

सं. ए-11025/1/2014-डीसीएचएल/स्था-II—राष्ट्रपति, श्री प्रबा करन को 20 अक्टूबर, 2015 (पूर्वाह्न) से भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, सेलम में अगले आदेशों तक 15600-39100/- रुपये (पे बैंड-3) + ग्रेड पे 5400/- रुपये के वेतनमान में वरिष्ठ प्रवक्ता (वस्त्र) के पद पर नियुक्त करते हैं।

राजेश कुमार साहू  
अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

सं. ए-11025/1/2014-डीसीएचएल/स्था-II—राष्ट्रपति, श्री बी. अनस शाह को 14 अक्टूबर, 2015 (पूर्वाह्न) से भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, फूलिया कॉलोनी, नाडिया (पश्चिम बंगाल) में अगले आदेशों तक 15600-39100/- रुपये (पे बैंड-3) + ग्रेड पे 5400/- रुपये के वेतनमान में वरिष्ठ प्रवक्ता (वस्त्र) के पद पर नियुक्त करते हैं।

राजेश कुमार साहू  
अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

दिनांक 5 नवंबर 2015

संख्या ए-23023/1/2014-डीसीएचएल/स्था-II—राष्ट्रपति, श्रीमती के. कुंजाबती देवी को 4 नवंबर 2015 (पूर्वाह्न) से भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, फूलिया कॉलोनी, नाडिया (पश्चिम बंगाल) में अगले आदेशों तक 9300-34800 रुपये (पे बैंड-2) + ग्रेड पे 4600/- रुपये के वेतनमान में सहायक निदेशक ग्रेड-II (गैर-तकनीकी) के पद पर नियुक्त करते हैं।

राजेश कुमार साहू  
अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

दिनांक 3 दिसम्बर 2015

सं. ए-23023/3/2014-डीसीएचएल/स्था-II—राष्ट्रपति, श्री एम. इबोहल सिंह को बुनकर सेवा केन्द्र, इम्फाल में दिनांक 3 दिसम्बर, 2015 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक के लिये 15600-39100/- रुपये (पे बैंड-3) + ग्रेड पे 5400/- रुपये के वेतनमान में सहायक निदेशक ग्रेड-I (बुनाई) के पद पर पदोन्नत करते हैं।

राजेश कुमार साहू  
अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

सं. ए-23023/7/2014-डीसीएचएल/स्था-II—राष्ट्रपति, श्री सी. मुथूसामी को बुनकर सेवा केन्द्र, नई दिल्ली में दिनांक 1 दिसम्बर, 2015 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक के लिये 15600-39100/- रुपये (पे बैंड-3) + ग्रेड पे 7600/- रुपये के वेतनमान में निदेशक के पद पर पदोन्नत करते हैं।

राजेश कुमार साहू  
अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

दिनांक 7 दिसम्बर 2015

सं. ए-11025/1/2014-डीसीएचएल/स्था-II—राष्ट्रपति, श्री दिलीप कुमार दास को 5 नवम्बर, 2015 (पूर्वाह्न) से भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, वाराणसी में अगले आदेशों तक 15600-39100/- रुपये (पे बैंड-3) + ग्रेड पे 5400/- रु. के वेतनमान में वरिष्ठ प्रवक्ता (वस्त्र) के पद पर नियुक्त करते हैं ।

राजेश कुमार साहू  
अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

दिनांक 8 दिसम्बर 2015

सं. ए-23023/8/2015-डीसीएचएल/स्था-II—राष्ट्रपति, श्री एम. रविचंद्रन को बुनकर सेवा केन्द्र, चैन्नई में दिनांक 11 नवंबर, 2015 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक के लिये 15600-39100/- रुपये (पे बैंड-3) + ग्रेड पे 5400/- रुपये के वेतनमान में सहायक निदेशक ग्रेड-। (प्रसंस्करण) के पद पर पदोन्नत करते हैं ।

राजेश कुमार साहू  
अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

सं. ए-23023/8/2015-डीसीएचएल/स्था-II—राष्ट्रपति, श्री ताहिर अहमद हकीम को बुनकर सेवा केन्द्र, श्रीनगर में दिनांक 10 नवंबर, 2015 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक के लिये 15600-39100/- रुपये (पे बैंड-3) + ग्रेड पे 5400/- रुपये के वेतनमान में सहायक निदेशक ग्रेड-। (प्रसंस्करण) के पद पर पदोन्नत करते हैं ।

राजेश कुमार साहू  
अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

खान मंत्रालय

(भारतीय खान ब्यूरो)

नागपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2015

सं. ए: 19012/377/2014 स्था. एपीपी.—श्री. एस. एल. खडगी,, सहायक खनन अर्थशास्त्री, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर वार्धक्य आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप दि. 30.6.2015 {अपराह्न} से कार्यभार मुक्त हो गए हैं ।

एन.डहंगा  
प्रशासनिक अधिकारी

सं. ए: 19012/400/2014 स्था. एपीपी.—श्री. आर. एन. हाजरा, खनिज अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर वार्धक्य आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप दि. 31.05.2015 {अपराह्न} से कार्यभार मुक्त हो गए हैं ।

एन.डहंगा  
प्रशासनिक अधिकारी

सं. ए: 19012/488/2014 स्था. एपीपी.—श्रीमती यु. बी. पाटिल, वरिष्ठ निजी सचिव, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर वार्धक्य आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप दि. 30.6.2015 {अपराह्न} से कार्यभार मुक्त हो गए हैं ।

एन.डहंगा  
प्रशासनिक अधिकारी

सं. ए: 19011/517/2014 स्था. एपीपी.—श्री बी. राम मोहन, क्षेत्रिय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, बंगलोर वार्धक्य आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप दि. 30.9.2015 {अपराह्न} से कार्यभार मुक्त हो गए हैं ।

एन.डहंगा  
प्रशासनिक अधिकारी

सं. ए: 19012/538/2014 स्था. एपीपी.—श्री. व्ही. ए. जगताप, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर वार्धक्य आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप दि. 31.7.2015 {अपराह्न} से कार्यभार मुक्त हो गए हैं ।

एन.डहंगा  
प्रशासनिक अधिकारी

सं. ए: 19011/585/2014 स्था. एपीपी.—श्री. एस. जे. शेन्डे, वरिष्ठ सांख्यिकी, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर वार्धक्य आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप दि. 31.10.2015 { अपराहन } से कार्यभार मुक्त हो गए हैं ।

एन.डहंगा  
प्रशासनिक अधिकारी

दिनांक 9 दिसम्बर 2015

सं. ए: 19011/502/2003 स्था. ए.—विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री एस. आर. रॉय, क्षेत्रीय खान नियंत्रक, को भारतीय खान ब्यूरो, जबलपुर में दिनांक 27.11.2015 (पूर्वाहन) से खान नियंत्रक के पद पर पदोन्नति की जाती है।

नोएल डहंगा  
प्रशासनिक अधिकारी  
कृते महानियंत्रक

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुंबई-85, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

सं. पीडी/2(1)(iv)/2014-भर्ती-IV/14165—राष्ट्रपति, डॉ. रविंद्र नगराम चव्हाण को भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में वैज्ञानिक अधिकारी/सी के पद पर रु. 15,600—39,100/- + 5,400/- (ग्रेड पे) + एनपीए के वेतनमान में 08 जुलाई 2015 के पूर्वाहन से, आगामी आदेशों तक अस्थाई रूप में नियुक्त करते हैं।

एम. व्ही. श्रीधरन  
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

नवी मुंबई-400703, दिनांक 8 दिसम्बर 2015

शुद्धिपत्र

सं. ब्रिट/9/17(3)/जुलाई/2015/19—इस बोर्ड द्वारा दिनांक 14 नवम्बर 2015 को जारी अधिसूचना सं. BRIT/9/17(1)/ जुलाई /2015/12 में निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी की ग्रेड 'एफ' में पदोन्नति की तिथि 01.07.2015 के स्थान पर 21.07.2015 (पूर्वाहन) पढ़ी जाए।

1. डॉ. शिशिर कुमार सरकार

पी. रामकृष्णन  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

मुंबई-400001, दिनांक 2 दिसम्बर 2015

सं. 6(2708)/2015-प्रशा./16410—राष्ट्रपति, भारी पानी बोर्ड (केंद्रीय कार्यालय), मुंबई के वरिष्ठ हिंदी अनुवादक [(पीबी-2) रु. 9300-34800 + ग्रेड वेतन रु. 4600] श्री मुकेश यादव को दिनांक 28 सितंबर 2015 के पूर्वाहन से प्रभावी रूप में भावी आदेश होने तक परमाणु ऊर्जा विभाग, शाखा सचिवालय, नई दिल्ली में सहायक निदेशक (राजभाषा) (पीबी-3 रु. 15600-39100 + ग्रेड वेतन रु. 5400) के रूप में नियुक्त करते हैं।

के. पी. एस. पिल्लै  
अवर सचिव

राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

इन्दौर, दिनांक 5 नवम्बर 2015

सं. आरआरकेट/प्रशा/2014/भ-805/1122—भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी/सी (वेतनबैंड : 3, रु. 15600-39100 + ग्रेड वेतन रु. 5400/-) को पदोन्नति पर दिनांक 01-07-2014 (पूर्वाहन) से वैज्ञानिक अधिकारी/डी (वेतनबैंड : 3, रु. 15600-39100 + ग्रेड वेतन रु. 6600/-) के पद पर राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र, इंदौर में आगामी आदेश होने तक नियुक्त करते हैं:-

| क्र.स. | सं.सं.संख्या | नाम                     | प्रभाग/ अनुभाग |
|--------|--------------|-------------------------|----------------|
| 1      | 467          | श्री दिनेश कुमार भटनागर | सीडी           |
| 2      | 1849         | श्री विनोद कुमार मौर्य  | सीडी           |

| क्र.स. | सं.सं.संख्या | नाम                        | प्रभाग / अनुभाग |
|--------|--------------|----------------------------|-----------------|
| 3      | 1917         | कु. पूजा पठेजा             | एलबीएएंडआइडी    |
| 4      | 1839         | श्री रजनीश कुमार           | पीएलएंडएससीडी   |
| 5      | 1985         | श्री हरीश कुमार विश्वकर्मा | पीएसएंडआईएडी    |
| 6      | 1841         | श्री अरिहंत कुमार जैन      | पीएसएंडआईएडी    |
| 7      | 1909         | श्री शौभिक चक्रवर्ती       | आरएफएसडी        |
| 8      | 1217         | श्री बालकृष्ण सिन्दल       | यूएचवीटीएस      |

बी.के. जेना  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सं. आरआरकेट/प्रशा/2014/भ-805/1123—भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित तकनीकी अधिकारी/सी (वेतनबैंड : 3, रु. 15600—39100 + ग्रेड वेतन रु. 5400/—) को पदोन्नति पर दिनांक 01-07-2014 (पूर्वाह्न) से तकनीकी अधिकारी/डी (वेतनबैंड : 3, रु. 15600—39100 + ग्रेड वेतन रु. 6600/—) के पद पर राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र, इंदौर में आगामी आदेश होने तक नियुक्त करते हैं:-

| क्र.स. | सं.सं.संख्या | नाम                 | प्रभाग / अनुभाग |
|--------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1      | 532          | श्री ओम प्रकाश जोशी | एसीएस           |
| 2      | 1211         | श्री ऋषिपाल         | एमएंडओएसएस      |

बी.के. जेना  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सं. आरआरकेट/प्रशा/2014/भ-805/1124—भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी/डी (वेतनबैंड : 3, रु. 15600—39100 + ग्रेड वेतन रु. 6600/—) को पदोन्नति पर दिनांक 01-07-2014 (पूर्वाह्न) से वैज्ञानिक अधिकारी/ई (वेतनबैंड : 3, रु. 15600—39100 + ग्रेड वेतन रु. 7600/—) के पद पर राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र, इंदौर में आगामी आदेश होने तक नियुक्त करते हैं:-

| क्र.स. | सं.सं.संख्या | नाम                      | प्रभाग / अनुभाग |
|--------|--------------|--------------------------|-----------------|
| 1      | 1389         | श्री संजय शर्मा          | एसीडीएंडएफएस    |
| 2      | 1963         | श्री सुधीर कुमार         | एएमटीडी         |
| 3      | 1704         | श्री मनजीत अहलावत        | एएमटीडी         |
| 4      | 395          | श्री संतोष कुमार बिलैया  | सीएंडएसडी       |
| 5      | 723          | श्री जय कृष्ण पटनायक     | सीडी            |
| 6      | 1680         | श्री प्रशांत कुमार साहनी | आइओबीडीएंडडीडी  |
| 7      | 1673         | श्री प्रदीप कुमार        | आइओबीडीएंडडीडी  |
| 8      | 879          | श्री लोकाेश कुमार बब्बर  | आइओबीडीएंडडीडी  |
| 9      | 1809         | डॉ. सोमा बनिक            | आइएसयूडी        |
| 10     | 1706         | श्री नागेश्वरराव पोथाना  | आइएसयूडी        |
| 11     | 1734         | श्री हेमन्त कृष्णा       | एलबीएएंडआइडी    |
| 12     | 1716         | श्री बृजेश चन्द्र पंत    | एलबीएएंडआइडी    |
| 13     | 1677         | श्री रोहन भांडारे        | एलबीएएंडआइडी    |

| क्र.स. | सं.सं.संख्या | नाम                            | प्रभाग / अनुभाग |
|--------|--------------|--------------------------------|-----------------|
| 14     | 1642         | श्री आयुक्त कुमार पाठक         | एलईएसडी         |
| 15     | 1671         | श्री अमित कुमार दास            | एलएमपीडी        |
| 16     | 1887         | डॉ. सुमन बागची                 | एलपीडी          |
| 17     | 1731         | श्री मुहम्मद तय्यब             | एलपीडी          |
| 18     | 1733         | श्री सचिन कुमार अग्रवाल        | एलएसईएस         |
| 19     | 1732         | श्री चिराग भाई पाटीदार         | एमएंडएएसडी      |
| 20     | 1709         | श्री अरूप रतन जाना             | एमएंडएएसडी      |
| 21     | 1675         | श्री अखिल पटैल                 | एमएंडएएसडी      |
| 22     | 1713         | श्री महेश आचार्य               | पीएचपीएमडी      |
| 23     | 1776         | श्री किंशुक कुमार दास          | पीएलएंडएससीडी   |
| 24     | 1737         | श्री आलोक सिंह                 | पीएसएंडआईएडी    |
| 25     | 236          | श्री समीरेन्दु राय             | पीएसएंडआईएडी    |
| 26     | 1715         | श्री शैलेश कुमार खमारी         | एसएसएलडी        |
| 27     | 1578         | श्री एस डी वी एस जगन्नाथा राजू | एसएसएलडी        |
| 28     | 1712         | श्री ध्रुवदीप नर्वत            | एसएसएलडी        |

बी.के. जेना  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सं. आरआरकेट/प्रशा/2014/भ-805/1125—भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी/सी (वेतनबैंड : 3, रु. 15600—39100 + ग्रेड वेतन रु. 5400/—) को पदोन्नति पर दिनांक 02-12-2014 (पूर्वाह्न) से वैज्ञानिक अधिकारी/डी (वेतनबैंड : 3, रु. 15600—39100 + ग्रेड वेतन रु. 6600/—) के पद पर राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र, इंदौर में आगामी आदेश होने तक नियुक्त करते हैं:-

| क्र. स. | सं.सं.संख्या | नाम                       | प्रभाग / अनुभाग |
|---------|--------------|---------------------------|-----------------|
| 1       | 1834         | श्री विनीत कुमार द्विवेदी | पीएसएंडआईएडी    |

बी.के. जेना  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सं. आरआरकेट/प्रशा/2014/भ-805/1126—भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी/डी (वेतनबैंड : 3, रु. 15600—39100 + ग्रेड वेतन रु. 6600/—) को पदोन्नति पर दिनांक 04-08-2014 (पूर्वाह्न) से वैज्ञानिक अधिकारी/ई (वेतनबैंड : 3, रु. 15600—39100 + ग्रेड वेतन रु. 7600/—) के पद पर राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र, इंदौर में आगामी आदेश होने तक नियुक्त करते हैं:-

| क्र. स. | सं.सं.संख्या | नाम                     | प्रभाग / अनुभाग |
|---------|--------------|-------------------------|-----------------|
| 1       | 1611         | श्रीमती अमिता चतुर्वेदी | एलएमपीडी        |

बी.के. जेना  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

## निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय

मुंबई-400094, दिनांक 9 दिसंबर 2015

सं. निसेसंप्रनि/प्र/3(2431)/2015-भर्ती/1786—राष्ट्रपति, श्री एन. श्रीकुमार, उप लेखा नियंत्रक, पीबी-3 (रु. 15600-39100/- एवं ग्रेड वेतन रु. 6600/-), एन एफ सी, हैदराबाद को निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई में संयुक्त नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) के पद पर पीबी-3 के वेतन बैंड रु. 15600-39100/- एवं ग्रेड वेतन रु. 7600/- में दिनांक 23.11.2015 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

जी. एस. करवाड़े  
प्रशासन अधिकारी-III

सं. निसेसंप्रनि/प्र/9(230)/2015-भर्ती/1788—राष्ट्रपति, श्रीमती परिमला गणेशन, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, (पीबी-3 रु. 15600-39100/- एवं ग्रेड वेतन रु. 5400/-) को निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई में उप लेखा नियंत्रक के पद पर पीबी-3 के वेतन बैंड रु. 15600-39100/- एवं ग्रेड वेतन रु. 6600/- में दिनांक 01.12.2015 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

जी. एस. करवाड़े  
प्रशासन अधिकारी-III

## परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय

हैदराबाद-500016, दिनांक 20 नवम्बर 2015

सं. पखनि-4/2/2015-भर्ती/2517—राष्ट्रपति, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/अभियंताओं को अगले आदेशों तक स्थानापन्न क्षमता में इसी निदेशालय में दिनांक 1 जुलाई, 2015 से वेतन बैंड (पीबी-4) रु. 37,400-67,000/- + ग्रेड वेतन रु. 8,700 में पदोन्नति द्वारा वैज्ञानिक अधिकारी-एफ के पद पर नियुक्त करते हैं :-

| क्र. सं. | नाम<br>सर्वश्री          |
|----------|--------------------------|
| 1.       | बिप्लाब चन्द्र सरकार     |
| 2.       | अजित कुमार जैन           |
| 3.       | डॉ. एम.एन. बाबु          |
| 4.       | राजीव रंजन               |
| 5.       | एम. नरसिम्हा चारी        |
| 6.       | सुश्री शास्वती आर. चौधरी |
| 7.       | डॉ. रुपा बोस             |
| 8.       | एन. वेंकटेश बाबु         |
| 9.       | ओ. पी. शर्मा             |
| 10.      | वेद प्रकाश               |

ए. एस. लक्ष्मण राव  
मुख्य प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी

## जल संसाधन नदी विकास एवम् गंगा संरक्षण मंत्रालय

(केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड)

फरीदाबाद -121001, दिनांक 14 दिसम्बर 2015

सं. 3-1820/2015 अनु. स्था./10470—विभागीय पदोन्नति समिति (समूह-ख, राजपत्रित) की सिफारिश एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के आधार पर श्री दानेश्वर लेमाया, वरिष्ठ आशुलिपिक, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड को वेतन बैंड-2 व वेतनमान रुपये 9300-34800/- एवं ग्रेड वेतन रु. 4600/- के साथ प्रति माह एवं सामान्य भत्तों के आधार पर निजी सचिव, (समूह-ख, राजपत्रित) के पद पर केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, मुख्यालय, फरीदाबाद में दिनांक 10.09.2015 पूर्वाह्न से पदोन्नति किया जाता है।

उपरोक्त अधिकारी वर्तमान ग्रेड में कार्यग्रहण करने की तिथि दिनांक 10.09.2015 से दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, सक्षम अधिकारी के विवेकाधिकार द्वारा इस अवधि को आगे भी बढ़ाया जा सकता है।

आई. एस. काडाकोटी  
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

सं. 4-3325/1983 अनु. स्था./10471—विभागीय पदोन्नति समिति (समूह-ख, राजपत्रित) की सिफारिश एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के आधार पर श्री बी. के. डुडेजा, वरिष्ठ आशुलिपिक, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, मुख्यालय, फरीदाबाद को वेतन बैंड-2 व वेतनमान रुपये 9300-34800/- एवं ग्रेड वेतन रु. 4600/- के साथ प्रति माह एवं सामान्य भत्तों के आधार पर निजी सचिव, (समूह-ख, राजपत्रित) के पद पर केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, मुख्यालय, फरीदाबाद में दिनांक 16.10.2015 पूर्वाह्न से पदोन्नति किया जाता है।

उपरोक्त अधिकारी वर्तमान ग्रेड में कार्यग्रहण करने की तिथि दिनांक 16.10.2015 से दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, सक्षम अधिकारी के विवेकाधिकार द्वारा इस अवधि को आगे भी बढ़ाया जा सकता है।

आई. एस. काडाकोटी  
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

सं. 3-1821/2015 अनु. स्था./10472—विभागीय पदोन्नति समिति (समूह-ख, राजपत्रित) की सिफारिश एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के आधार पर श्री वी. भी. राजागोपालन, कार्यालय अधीक्षक, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, केरल क्षेत्र, त्रिवेन्द्रम को वेतन बैंड-2 व वेतनमान रुपये 9300-34800/- एवं ग्रेड वेतन रु. 4800/- के साथ प्रति माह एवं सामान्य भत्तों के आधार पर प्रशासनिक अधिकारी, (समूह-ख, राजपत्रित) के पद पर केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, मुख्यालय, फरीदाबाद में दिनांक 17.09.2015 पूर्वाह्न से पदोन्नति किया जाता है।

उपरोक्त अधिकारी वर्तमान ग्रेड में कार्यग्रहण करने की तिथि दिनांक 17.09.2015 से दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, सक्षम अधिकारी के विवेकाधिकार द्वारा इस अवधि को आगे भी बढ़ाया जा सकता है।

आई. एस. काडाकोटी  
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

सं. 3-1824/2015 अनु. स्था./10473—विभागीय पदोन्नति समिति (समूह-ख, राजपत्रित) की सिफारिश एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के आधार पर श्रीमती गीता पासी, वरिष्ठ आशुलिपिक, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, मुख्यालय, फरीदाबाद को वेतन बैंड-2 व वेतनमान रुपये 9300-34800/- एवं ग्रेड वेतन रु. 4600/- के साथ प्रति माह एवं सामान्य भत्तों के आधार पर निजी सचिव, (समूह-ख, राजपत्रित) के पद पर केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, मुख्यालय, फरीदाबाद में दिनांक 23.09.2015 पूर्वाह्न से पदोन्नति किया जाता है।

उपरोक्त अधिकारी वर्तमान ग्रेड में कार्यग्रहण करने की तिथि दिनांक 23.09.2015 से दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, सक्षम अधिकारी के विवेकाधिकार द्वारा इस अवधि को आगे भी बढ़ाया जा सकता है।

आई. एस. काडाकोटी  
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

## कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार)

कम्पनी अधिनियम, 1956 के मामले और 26 कम्पनियों के संबंध में

जयपुर—302001, दिनांक 11 दिसम्बर 2015

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/5/437—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्न कम्पनियों के नाम, कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिए गये हैं और उक्त कम्पनियाँ विघटित कर दी गई हैं:—

| क्र.स. | कम्पनी नम्बर | कम्पनी का नाम                                            |
|--------|--------------|----------------------------------------------------------|
| 1      | 042030       | उपासना सीमेन्ट्स इण्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड            |
| 2      | 022602       | बुधवार कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड                     |
| 3      | 001819       | इवरेस्ट मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड                        |
| 4      | 039052       | व्हाइट लिली रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड                   |
| 5      | 046900       | पिंक सिटी प्रिमियर लीग प्राईवेट लिमिटेड                  |
| 6      | 035777       | टेक्नो-प्रेश (इण्डिया) एग्री सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 7      | 042234       | एन.एस. टेक्नोसोफ्ट प्राईवेट लिमिटेड                      |
| 8      | 045194       | श्री गणपति सुप्रीम स्टोन्स प्राईवेट लिमिटेड              |
| 9      | 041995       | ऐस्टेसी वोयेज प्राईवेट लिमिटेड                           |
| 10     | 041408       | श्रीजी सिटीप्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड                  |
| 11     | 004213       | इन्ट्रेड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड                    |
| 12     | 027615       | रिले ऑन स्टॉक्स प्राईवेट लिमिटेड                         |
| 13     | 030777       | महला इस्पात प्राईवेट लिमिटेड                             |
| 14     | 014122       | विकास पम्पस प्राईवेट लिमिटेड                             |
| 15     | 030081       | बैराठी स्टॉकनेट प्राईवेट लिमिटेड                         |
| 16     | 046196       | सुर्योदय एनर्जी एक्सपर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड              |
| 17     | 009091       | भारती सर्वैयर्स एण्ड इन्वेस्टिगटर्स प्राईवेट लिमिटेड     |
| 18     | 027150       | जी.एन. होटल्स प्राईवेट लिमिटेड                           |
| 19     | 044615       | राजस्थानी शोपिंग कारपोरेशन प्राईवेट लिमिटेड              |
| 20     | 017763       | दिविज एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड                       |
| 21     | 043379       | इण्डिया एक्सपिडिशन ट्यूर प्राईवेट लिमिटेड                |
| 22     | 034252       | श्री राधे गोविन्द बिल्डिंग मेटेरियल प्राईवेट लिमिटेड     |
| 23     | 025087       | राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स लिमिटेड    |
| 24     | 027464       | डाटाबाईटे इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड                      |
| 25     | 042113       | जेएमजी सीमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड                          |
| 26     | 045379       | कर्मयोगी इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड                     |

इमरान ए. सिद्दीकी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
एवं सहायक शासकीय समापक  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के संबंध में

बिलासपुर-495001, दिनांक 29 अक्तूबर 2015

सं. आर.ओ.सी.—कम—ओएल—सीजी./ 560(5)2015/1495—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्न कम्पनियों के नाम, कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिए गये हैं और उक्त कम्पनियाँ विघटित कर दी गई हैं :—

|    | Annexure- 'B'           |                                                             |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
|    | ROC-cum-OL CHHATTISGARH |                                                             |
|    | CIN                     | COMPANY NAME                                                |
| 1  | U45200CT1997PTC012080   | मयंक फ़ार्चून इन्फ़्रा प्रायवेट लिमिटेड                     |
| 2  | U45200CT2012PTC000644   | फ़्यूचर जनरेशन मल्टीट्रेड एन्ड रियल इस्टेट प्रायवेट लिमिटेड |
| 3  | U63020CT2010PTC021612   | राघव शीत ग्रह प्रायवेट लिमिटेड                              |
| 4  | U72200CT2011PTC022598   | अरितोस टेक्नोलॉजी प्रायवेट लिमिटेड                          |
| 5  | U51395CT2011PTC022398   | अविष्कार टेलीकॉम प्रायवेट लिमिटेड                           |
| 6  | U24233CT2012PTC000409   | एसेन्चर फार्मा इंडिया प्रायवेट लिमिटेड                      |
| 7  | U31901CT1987PTC003774   | मुंद्रा पोलीपैक प्रायवेट लिमिटेड                            |
| 8  | U51900CT2012PTC000588   | इन्वर्जन मल्टीट्रेड एन्ड ब्रोकरेज प्रायवेट लिमिटेड          |
| 9  | U92412CT2009PTC021474   | श्रील अनलिमिटेड इंडिया प्रायवेट लिमिटेड                     |
| 10 | U92190CT2011PTC000065   | ग्रांडीओस इन्टरटेन्मेन्ट इंडिया प्रायवेट लिमिटेड            |

आर.के. साहू  
कम्पनी रजिस्ट्रार—कम—शासकीय समापक  
छत्तीसगढ़

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

बिलासपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2015

स. आर ओ सी/560(5)/एफ टी ई/2015—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा 5 के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियाँ विघटित हो गई हैं। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही निम्नलिखित कम्पनियों का नाम काट दिया गया है।

| क्र. सं. | कंपनी नंबर | कंपनी का नाम                                          |
|----------|------------|-------------------------------------------------------|
| 1        | 018126     | फ़्यूचर जोन कम्प्यूटर इंडूकेशन (प्रा.) लिमिटेड        |
| 2        | 000878     | जेवीएस इन्फ़्राटेक रियलटर्स प्रायवेट लिमिटेड          |
| 3        | 022362     | एक्स्ट्रावेगानजा इन्टरटेन्मेन्ट प्रायवेट लिमिटेड      |
| 4        | 021557     | श्री हरि दिव्या इन्टरनेशनल प्रायवेट लिमिटेड           |
| 5        | 020660     | अमृत आयरन एन्ड मिनरल्स प्रायवेट लिमिटेड               |
| 6        | 020653     | जय राघव माईन्स एन्ड मिनरल्स प्रायवेट लिमिटेड          |
| 7        | 022594     | फ़ाईव स्टार इन्फ़ास्ट्रक्चर्स इंडिया प्रायवेट लिमिटेड |
| 8        | 021483     | जेनिथ रियल इस्टेटस् एन्ड मिनरल्स प्रायवेट लिमिटेड     |
| 9        | 001449     | रिमेजिंग इंडिया फ़ूड एन्ड बेवरेजस् प्रायवेट लिमिटेड   |

आर.के. साहू  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
सह—शासकीय समापक  
छत्तीसगढ़

लिमिटेड लाईविलिटी पार्टनरशिप अधिनियम 2008 तथा निम्नलिखित एल.एल.पी के मामले में

कोलकाता, दिनांक 10 दिसम्बर 2015

सं. क.र./प.व./एल.एल.पी-75/2015—उपरोक्त विषय पर भारत के राजपत्र में अधिसूचित हेतु एल.एल.पी. नियम 2009 का नियम 37(3) के साथ पठित लिमिटेड लाईविलिटी पार्टनरशिप अधिनियम 2008 की धारा 75 के अन्तर्गत निम्नलिखित 2 एल.एल.पी. के नाम आज के दिन से रजिस्टर से काट दिए हैं तथा वे एल.एल.पी. विघटित कर दी गई है।

| क्र. सं. | एलएलपीआईएन | एलएलपी का नाम                  |
|----------|------------|--------------------------------|
| 1        | AAB-4544   | क्सपनाचे क्रियेसन एलएलपी       |
| 2        | AAA-0458   | सिडकर ग्रीन टेक्नोलोजीस एलएलपी |

प्रणय चतुर्वेदी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
पश्चिम बंगाल

कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा निम्नलिखित कम्पनियों के मामले में

कोलकाता, दिनांक 10 दिसम्बर 2015

सं. क.र./प.व./एफटीई/560/2015—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप धारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज के दिन से रजिस्टर से काट दिए हैं तथा उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं।

| क्र. सं. | कंपनी नंबर            | कंपनी का नाम                                 |
|----------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1        | U40300WB2013PTC193899 | आल्टजन सोलर प्राइवेट लिमिटेड                 |
| 2        | U70102WB2011PTC159603 | आदित्य के बंगुर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड  |
| 3        | U74999WB2011PTC169616 | ऐजिल ट्रेकसीम प्राइवेट लिमिटेड               |
| 4        | U70109WB2008PTC128188 | एपोजी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड              |
| 5        | U45400WB2012PTC188045 | अर्सुसेन टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड         |
| 6        | U74900WB2012PTC188381 | एएसके बिज़नेस कंसलटेंसी प्राइवेट लिमिटेड     |
| 7        | U70100WB2008PTC125614 | बि.यू.एन.जे. कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड   |
| 8        | U74999WB2012PTC183736 | बसर टेकनो डेव्लोपमेंट प्राइवेट लिमिटेड       |
| 9        | U24129WB2006PTC111732 | बंगाल कंट्री फार्म एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 10       | U80302WB2002PTC094595 | कैड कैम कोन्सेप्ट्स कलकत्ता प्राइवेट लिमिटेड |
| 11       | U85191WB2008PTC128298 | सीएम अमलोजिन चुरना कंपनी प्राइवेट लिमिटेड    |
| 12       | U51909WB2008PTC124076 | एकदंत ट्रकॉम प्राइवेट लिमिटेड                |
| 13       | U51909WB2013PTC194041 | एनेरगिटो इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड            |
| 14       | U74995WB1997PTC082516 | ग्रीन गोल्ड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड     |

| क्र. सं. | कंपनी नंबर            | कंपनी का नाम                                       |
|----------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| 15       | U51909WB2010PTC149798 | हरिद्वार विनट्रेड प्राइवेट लिमिटेड                 |
| 16       | U67120WB1960PLC024904 | इंडियन एंड जेनरल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड       |
| 17       | U51909WB2012PTC174463 | कौशलवाणी ट्रेडकॉम प्राइवेट लिमिटेड                 |
| 18       | U18103WB1957PTC023661 | एम पी अग्रवाल एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड           |
| 19       | U45400WB2008PTC126401 | महादेओ रियलकॉन प्राइवेट लिमिटेड                    |
| 20       | U51109WB1951PLC019836 | मार्टिन्स प्रोसेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड               |
| 21       | U13209WB2010PTC153935 | मयूर एक्सप्लोरेसन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड          |
| 22       | U74900WB2013PTC198940 | न्यूऐज कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड                   |
| 23       | U74900WB2013PTC198940 | न्यूजलाईफ पब्लिशिंग एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड    |
| 24       | U15122WB2014PTC201630 | नाइटऐंगल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड               |
| 25       | U15510WB2011PTC170886 | नुवो डिस्ट्रीलैरीज प्राइवेट लिमिटेड                |
| 26       | U52100WB2010PTC146499 | ओकारं ट्रेकसीम प्राइवेट लिमिटेड                    |
| 27       | U70100WB2010PTC146139 | ओवरटॉप प्लज्जा प्राइवेट लिमिटेड                    |
| 28       | U51909WB1990PTC048567 | पद्मावती बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड                   |
| 29       | U70101WB2007PTC117466 | पद्मावती निर्माण प्राइवेट लिमिटेड                  |
| 30       | U51909WB2006PTC109045 | पंचमुखी कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड                  |
| 31       | U51109WB2008PTC122200 | परमपिता एजेन्सीज प्राइवेट लिमिटेड                  |
| 32       | U70102WB2014PTC201107 | प्रिकल रियल एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड              |
| 33       | U51909WB2008PTC131193 | प्राईमरोज टाइ-अप प्राइवेट लिमिटेड                  |
| 34       | U18109WB2012PTC188558 | प्रीति क्लोथिंग्स प्राइवेट लिमिटेड                 |
| 35       | U74999WB2011PTC162597 | पूजा राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड                   |
| 36       | U51909WB2010PTC141033 | रत्नाकर कोमोट्रेड प्राइवेट लिमिटेड                 |
| 37       | U52190WB2010PTC153817 | ऋषि सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड                     |
| 38       | U74999WB2012PTC184683 | रितु-रोशनी पीवीसी पाइप्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड |
| 39       | U45209WB2009PTC134829 | श्री कात्यायनी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड   |
| 40       | U24100WB2014PTC204174 | सुप्रतिम स्पेशीएलिटी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड     |
| 41       | U74999WB2011PTC166155 | वेल्वेट कैन्वस प्राइवेट लिमिटेड                    |
| 42       | U74900WB2014PTC201769 | वोका टी एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड            |

सौरभ गौतम  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
पश्चिम बंगाल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

पुडुच्चेरी—605011, दिनांक 16 नवम्बर 2015

सं. 3(161)/560(5)/2015—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कंपनियां विघटित हो गई हैं :-

| क्र.सं. | कम्पनी संख्या | कम्पनी का नाम                        |
|---------|---------------|--------------------------------------|
| 1       | 2611          | फबेरनासाद रेसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 2       | 2336          | ई-इनफलेक्शन प्राइवेट लिमिटेड         |
| 3       | 2229          | ऑरेंज कॉपस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड  |
| 4       | 2473          | फर्स्ट जॉब प्राइवेट लिमिटेड          |

सी.म. कार्ल मार्क्स  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
पुडुच्चेरी

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कोयंबतूर—641005, दिनांक 9 दिसम्बर 2015

स. आर ओ सी/सीबीई/560(5)/एफटीई/2015—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियाँ विघटित हो गई हैं:—

| क्र. सं. | सिन नंबर              | कम्पनी का नाम                                             |
|----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1        | U05110TZ1981PTC001024 | सबिता चंद्रन ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड                     |
| 2        | U50102TZ1981PTC001025 | जगदीष चंद्रन एन्टरप्राइस प्राइवेट लिमिटेड                 |
| 3        | U65993TZ1986PTC001782 | सड्फ इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड                     |
| 4        | U65993TZ1990PTC002805 | सूपर पेयर्स अन्ड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड                |
| 5        | U50200TZ1992PTC004031 | कोयंबतूर आदुठो गेरेज प्राइवेट लिमिटेड                     |
| 6        | U05110TZ1993PLC004316 | विजयेस्वरी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड                            |
| 7        | U74140TZ1994PLC004796 | फास्टफारवार्ड मैनेजमेन्ट अन्ड फिनान्सियल सर्विसेस लिमिटेड |
| 8        | U72200TZ1995PLC006066 | इन्टरनेट अप्लेयन्स अन्ड सर्विसेस एसिया लिमिटेड            |
| 9        | U72200TZ1995PTC006182 | गोल्डसन मैक्रोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड                   |
| 10       | U18101TZ1995PTC006558 | सुसान्त अप्पेरलस प्राइवेट लिमिटेड                         |
| 11       | U17111TZ1996PTC007598 | श्री नित्यमनी काट्टन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड               |
| 12       | U03699TZ1996PTC007392 | सिवसक्ती पेर्टन वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड                   |
| 13       | U65992TZ1997PTC007983 | एन एस एस चिट फन्ड्स प्राइवेट लिमिटेड                      |
| 14       | U17115TZ2003PTC010602 | पी पी वीविंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड                       |
| 15       | U17111TZ2003PTC010611 | ओरियन पालीफेब प्राइवेट लिमिटेड                            |
| 16       | U17233TZ2003PTC010735 | अदिशूरया कायर्स प्राइवेट लिमिटेड                          |

| क्र. सं. | सिन नंबर              | कम्पनी का नाम                                             |
|----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 17       | U55101TZ2005PTC011580 | सेन्दिलप्रबू होटल्स प्राइवेट लिमिटेड                      |
| 18       | U17111TZ2006PTC012958 | अदिशूरया टेक्स्टाइल्स (इन्डिया) प्राइवेट लिमिटेड          |
| 19       | U17111TZ2007PTC013321 | ट्रेस्सर टेक्स इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड                   |
| 20       | U25199TZ2007PTC013684 | चरन स्पेसालिटी फोमस प्राइवेट लिमिटेड                      |
| 21       | U72200TZ2007PTC013711 | प्रोलिन्टयूर साफ्टवेयर इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड           |
| 22       | U51909TZ2007PTC013713 | विएसजे मारकेटिंग प्राइवेट लिमिटेड                         |
| 23       | U72200TZ2007PTC013890 | लिमट साफ्ट टेक्नालजीस इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड            |
| 24       | U52393TZ2008PTC014251 | अलुक्कास गोल्ड सूक इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड               |
| 25       | U72200TZ2008PTC014413 | क्लीयर लाजिक सिस्टम्स इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड            |
| 26       | U74140TZ2008PTC014459 | सेल्वम मेनेजमेन्ट कन्सल्टन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड           |
| 27       | U72200TZ2008PTC014868 | नेटून्स साफ्टवेयर सोल्यूसन्स प्राइवेट लिमिटेड             |
| 28       | U26900TZ2008PTC014940 | मैक्रोफैन नेचुरल मैक्रान्स इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड       |
| 29       | U45200TZ2009PTC015379 | ओम जेया, गणपती बिल्डर्स इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड          |
| 30       | U72200TZ2009PTC015491 | कोरल इन्फोमेट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड                      |
| 31       | U21090TZ2009PTC015511 | मणी ओमेगा पेप्पर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड                   |
| 32       | U40108TZ2010PTC015996 | सेषराज एनरजी प्राइवेट लिमिटेड                             |
| 33       | U63000TZ2010PTC016295 | एएनआर लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड                        |
| 34       | U70102TZ2010PTC016362 | अक्षया ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 35       | U14100TZ2011PTC017262 | श्री पलनीयप्पा ब्लू मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड               |
| 36       | U74999TZ2012PTC018020 | सीर7 टाइमलेस सोल्यूसन्स प्राइवेट लिमिटेड                  |
| 37       | U52322TZ2012PTC018230 | वरिद्धी वेन्चर्स प्राइवेट लिमिटेड                         |
| 38       | U72200TZ2012PTC018244 | एडलाग सोल्यूसन्स इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड                 |
| 39       | U31900TZ2012PTC018540 | ईसा एनर्जी सोल्यूसन्स प्राइवेट लिमिटेड                    |
| 40       | U52393TZ2012PTC018793 | आरए गोल्ड ज्वेल्स इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड                |
| 41       | U70200TZ2012PTC018820 | पिनाक्कल ग्रैम प्राप्पर्टीस इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड      |
| 42       | U22200TZ2013PTC019766 | पान्तीरा स्कन्दा मीडिया प्राइवेट लिमिटेड                  |
| 43       | U35122TZ2013PTC019908 | एलमन्ट 1 एन्टरप्राइस इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड             |
| 44       | U51909TZ2014PLC020652 | वैयम टेक्नालजीस लिमिटेड                                   |

जोसकुट्टी वी.ई  
उप कम्पनी पंजीयक  
तमिलनाडु

## SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 5th December 2015

No.F.20/2015-SCA(I)—Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to promote the following officers/officials to the post and with effect from the date mentioned against their names:-

| S. No. | Name & Designation                                                    | Post to which promoted & Date                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1      | Shri Madhu Sudan,<br>Branch Officer/<br>Court Master(Non-Shorthand)   | Assistant Registrar (Non-Shorthand) w.e.f 1.12.2015 (F.N)         |
| 2      | Shri Basant Ram,<br>Senior Court Assistant/<br>Editor of Paper Books  | Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) w.e.f 1.12.2015 (F.N) |
| 4      | Shri Gulab Singh,<br>Senior Court Assistant/<br>Editor of Paper Books | Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) w.e.f 1.12.2015 (A.N) |

BADR-UL-ISLAM  
Additional Registrar (Admn.-I)

F.20/2015/SCA(1)—Shri Ashok Kumar Mehta, Assistant Registrar and Ms. Veena Kohli, Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) have retired from the service of the Registry of the Supreme Court of India with effect from the afternoon of November 30, 2015 on their attaining the age of superannuation.

BADR-UL-ISLAM  
Additional Registrar (Admn.-I)

## CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi-110023, the 23rd October 2015

2/1/15-Admn./298230—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri Hemant Kumar, IRSS, Ministry of Railways as Chief Technical Examiner in the Commission on deputation basis, in Pay Band-4 (Rs. 37400-67,000/-) with Grade Pay of Rs.10,000/- for a period of 05 years w.e.f. the forenoon of 19/10/2015 or until further orders, whichever is earlier.

ASHOK KUMAR NAKRA  
Director (Admn.)  
For the Central Vigilance Commissioner

New Delhi-110023, the 3rd December 2015

No. 2/11/15-Admn/301273—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri Aditya Joshi, IRAS (1995) as Director in the Commission on Central Deputation basis in the Pay Band of Rs. 37400-67000/- with Grade Pay of Rs. 8700/- with effect from the forenoon of 13<sup>th</sup> November, 2015 on shift basis for a period upto 06.11.2018 or till further order, whichever is earlier.

P. K. MOHANTY  
Under Secretary (Admn.)  
for Central Vigilance Commissioner

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

## SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY

Hyderabad – 500 052, the 4th December 2015

No.15011/5/2015-Estt.—In pursuance of MHA O.M. No.I-21015/07/2015-IPS-III dated 05.11.2015, Ms.Veena Bharti, IPS (HP:2007) is appointed as Assistant Director in the SVP National Police Academy, Hyderabad in Pay Band-3 Rs.15,600 – 39,100/- with Grade Pay Rs.7,600/-, on deputation basis for a period of four years with effect from the afternoon

of 27th November, 2015 or until further orders, whichever is earlier, on usual terms and conditions of deputation. Officer will be entitled to the pay and allowances of the said post, as per GOI instructions issued from time to time.

ARUNA BAHUGUNA  
Director

DIRECTORATE GENERAL, CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-110003, the 9th December 2015

No.E-16013/AK/2010/PERS.II/15/1615—On repatriation to parent cadre, Shri Ajoy Kumar, IPS, (WB:1993) Deputy Inspector General, CISF relinquished the charge of the post of Deputy Inspector General, North East Zone HQrs., Kolkata in the afternoon of 07th December, 2015 in pursuance of MHA letter No.I-21016 / 39/2010-IPS-III dated 29.11.2010.

Sd/—Illegible  
DIRECTOR GENERAL/CISF

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E), WEST BENGAL

Kolkata-700001, the 14th August 2015

No. Admn.-I/1034-XXXIII/2015-16/131—Under kind orders of the Accountant General (A&E), West Bengal dated 14.08.2015 Shri Kali Charan Birua, S.A.S. (March, 2013) Examination passed Sr. Accountant and Shri Sikander Kerai, S.A.S (August, 2013) Examination passed Sr. Accountant are promoted to the cadre of Assistant Accounts Officer in the Pay Band of Rs. 9300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4800/- with effect from 17.08.2015(FN) or the date of taking over charge in the cadre of Assistant Accounts Officer in this office, whichever is later.

Posting Order will be issued separately.

M. MUKHERJEE  
Dy. Accountant General (Admn.)

The 27th August 2015

No. Admn.-I/1038-XXVIII/2015-16/152—The Accountant General (A&E), West Bengal is pleased to promote Shri Emmanuel Ekka, Asstt. Accounts Officer to the post of Account Officer in the Pay Band-2 of Rs. 9300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 5400/- per month with effect from 01.09.2015(FN) or the date of his taking over charge whichever is later.

[Authority A. G's order dated. 26.08.2015]

M. MUKHERJEE  
Dy. Accountant General (Admn.)

The 31st August 2015

No. Admn.-I/1034-XXXIII/2015-16/155—Under kind orders of the Accountant General (A&E), West Bengal dated 28.08.2015 Shri Subhasis Bandyopadhyay, S.A.S. (August, 2014) Examination passed DAO Gr.-II is promoted to the cadre of Assistant Accounts Officer in the Pay Band of Rs. 9300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4800/- with effect from 01.09.2015(FN) or the date of taking over charge in the cadre of Assistant Accounts Officer in this office, whichever is later.

Posting order will be issued separately.

M. MUKHERJEE  
Dy. Accountant General (Admn.)

MINISTRY OF TEXTILES

(OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER FOR HANDLOOMS)

New Delhi, the 14th August 2015

No.A-11025/1/2014-DCHL/Estt.II.—The President is pleased to appoint Shri Ashok Kumar Singh as Senior Lecturer (Textiles) in the pay scale of Rs.15600-39100/- (PB-3) plus Grade Pay Rs.5400/- in the Indian Institute of Handloom Technology, Varanasi w.e.f. the forenoon of 5<sup>th</sup> August 2015 until further orders.

RAJESH KUMAR SAHU  
Addl. Development Commissioner (Handlooms)

No.A-11025/2/2014-DCHL/Estt.II.—The President is pleased to appoint Shri Ashis Narayan Banerjee as Senior Lecturer (Textile Processing) in the pay scale of Rs.15600-39100/- (PB-3) plus Grade Pay Rs.5400/- in the Indian Institute of Handloom Technology, Guwahati w.e.f. the afternoon of 6<sup>th</sup> August 2015 until further orders.

RAJESH KUMAR SAHU  
Addl. Development Commissioner (Handlooms)

\_\_\_\_\_  
The 4th September 2015

No.A-11025/2/2014-DCHL/Estt.II.—The President is pleased to appoint Shri V. Sivakkumar as Senior Lecturer (Textile Processing) in the pay scale of Rs.15600-39100/- (PB-3) plus Grade Pay Rs.5400/- in the Indian Institute of Handloom Technology, Fulia Colony, Nadia (West Bengal) w.e.f. the forenoon of 27<sup>th</sup> August 2015 until further orders.

RAJESH KUMAR SAHU  
Addl. Development Commissioner (Handlooms)

\_\_\_\_\_  
The 5th October 2015

No.A-23023/6/2014-DCHL/Estt.II.—The President is pleased to promote Shri C. Rajasekaran as Assistant Director Gr.I (Designs) in the pay-scale of Rs.15600-39100/- (PB-3) + Grade Pay Rs.5400/- in the Weavers' Service Centre, Imphal w.e.f. the forenoon of 17<sup>th</sup> September 2015 until further orders.

RAJESH KUMAR SAHU  
Addl. Development Commissioner (Handlooms)

\_\_\_\_\_  
No.A-23023/7/2014-DCHL/Estt.II.—The President is pleased to promote Shri Vishesh Nautiyal as Director in the pay-scale of Rs.15600-39100/- (PB-3) + Grade Pay Rs.7600/- in the Weavers' Service Centre, Chennai w.e.f. 1<sup>st</sup> October 2015 (Forenoon) until further orders.

RAJESH KUMAR SAHU  
Addl. Development Commissioner (Handlooms)

\_\_\_\_\_  
The 27th October 2015

No.A-23023/1/2014-DCHL/Estt.II.—The President is pleased to promote Shri Babul Chandra Das as Assistant Director Gr.II (Non-Technical) in the pay-scale of Rs.9300-34800/- (PB-2) + Grade Pay Rs.4600/- in the Indian Institute of Handloom Technology, Guwahati w.e.f. 19<sup>th</sup> October 2015 (Forenoon) until further orders.

RAJESH KUMAR SAHU  
Addl. Development Commissioner (Handlooms)

\_\_\_\_\_  
The 4th November 2015

No.A-11025/1/2014-DCHL/Estt.II.—The President is pleased to appoint Shri Praba Karan as Senior Lecturer (Textiles) in the pay scale of Rs.15600-39100/- (PB-3) plus Grade Pay Rs.5400/- in the Indian Institute of Handloom Technology, Salem w.e.f. the forenoon of 20<sup>th</sup> October 2015 until further orders.

RAJESH KUMAR SAHU  
Addl. Development Commissioner (Handlooms)

\_\_\_\_\_  
No.A-11025/1/2014-DCHL/Estt.II.—The President is pleased to appoint Shri B. Anas Shah as Senior Lecturer (Textiles) in the pay scale of Rs.15600-39100/- (PB-3) plus Grade Pay Rs.5400/- in the Indian Institute of Handloom Technology, Fulia Colony, Nadia (West Bengal) w.e.f. the forenoon of 14<sup>th</sup> October 2015 until further orders.

RAJESH KUMAR SAHU  
Addl. Development Commissioner (Handlooms)

The 5th November 2015

No.A-23023/1/2014-DCHL/Estt.II.—The President is pleased to promote Smt. K. Kunjabati Devi as Assistant Director Gr.II (Non-Technical) in the pay-scale of Rs.9300-34800/- (PB-2) + Grade Pay Rs.4600/- in the Indian Institute of Handloom Technology, Fulia Colony, Nadia (West Bengal) w.e.f. 4<sup>th</sup> November 2015 (Forenoon) until further orders.

RAJESH KUMAR SAHU  
Addl. Development Commissioner (Handlooms)

The 3rd December 2015

No.A-23023/3/2014-DCHL/Estt.II.—The President is pleased to promote Shri M. Ibohal Singh as Assistant Director Gr.I (Weaving) in the pay-scale of Rs.15600-39100/- (PB-3) + Grade Pay Rs.5400/- in the Weavers' Service Centre, Imphal w.e.f. the forenoon of 3<sup>rd</sup> December 2015 until further orders.

RAJESH KUMAR SAHU  
Addl. Development Commissioner (Handlooms)

No.A-23023/7/2014-DCHL/Estt.II.—The President is pleased to promote Shri C. Muthusamy as Director in the pay-scale of Rs.15600-39100/- (PB-3) + Grade Pay Rs.7600/- in the Weavers' Service Centre, Delhi w.e.f. 1<sup>st</sup> December 2015 (Forenoon) until further orders.

RAJESH KUMAR SAHU  
Addl. Development Commissioner (Handlooms)

The 7th December 2015

No.A-11025/1/2014-DCHL/Estt.II.—The President is pleased to appoint Shri Dillip Kumar Das as Senior Lecturer (Textiles) in the pay scale of Rs.15600-39100/- (PB-3) plus Grade Pay Rs.5400/- in the Indian Institute of Handloom Technology, Varanasi w.e.f. the forenoon of 5<sup>th</sup> November 2015 until further orders.

RAJESH KUMAR SAHU  
Addl. Development Commissioner (Handlooms)

The 8th December 2015

No.A-23023/8/2015-DCHL/Estt.II.—The President is pleased to promote Shri M. Ravichandran as Assistant Director Gr.I (Processing) in the pay-scale of Rs.15600-39100/- (PB-3) + Grade Pay Rs.5400/- in the Weavers' Service Centre, Chennai w.e.f. the forenoon of 11<sup>th</sup> November 2015 until further orders.

RAJESH KUMAR SAHU  
Addl. Development Commissioner (Handlooms)

No.A-23023/8/2015-DCHL/Estt.II.—The President is pleased to promote Shri Tahir Ahmad Hakim as Assistant Director Gr.I (Processing) in the pay-scale of Rs.15600-39100/- (PB-3) + Grade Pay Rs.5400/- in the Weavers' Service Centre, Srinagar w.e.f. the forenoon of 10<sup>th</sup> November 2015 until further orders.

RAJESH KUMAR SAHU  
Addl. Development Commissioner (Handlooms)

MINISTRY OF MINES

INDIAN BUREAU OF MINES

Nagpur, the 8th December 2015

No.A-19012/377/2014-Estt. APP—Shri S. L. Khadgi, Assistant Mineral Economist, Indian Bureau of Mines, Nagpur has relinquished charge on the after-noon of 30.6.2015 on attaining the age of superannuation.

NOEL DAHANGA  
Administrative Officer

No.A-19012/400/2014-Estt. APP—Shri R. N. Hazra, Mineral Office, Indian Bureau of Mines, Nagpur has relinquished charge on the after-noon of 31.05.2015 on attaining the age of superannuation.

NOEL DAHANGA  
Administrative Officer

No.A-19012/488/2014-Estt. APP—Smt. U.B. Patil, Senior Private Secretary, Indian Bureau of Mines, Nagpur has relinquished charge on the after-noon of 30.6.2015 on attaining the age of superannuation.

NOEL DAHANGA  
Administrative Officer

No.A-19011/517/2014-Estt. APP—Shri B. Ram Mohan, Regional Controller of Mines, Indian Bureau of Mines, Nagpur has relinquished charge on the after-noon of 30.9.2015 on attaining the age of superannuation.

NOEL DAHANGA  
Administrative Officer

No.A-19012/538/2014-Estt. APP—Shri V. A. Jagtap, Assistant Administrative Office, Indian Bureau of Mines, Nagpur has relinquished charge on the after-noon of 31.7.2015 on attaining the age of superannuation.

NOEL DAHANGA  
Administrative Officer

No.A-19011/585/2014-Estt. APP—S. J. Shende, Senior Statistical Officer, Indian Bureau of Mines, Nagpur has relinquished charge on the after-noon of 31.10.2015 on attaining the age of superannuation.

NOEL DAHANGA  
Administrative Officer

The 9th December 2015

No.A-19011/502/2003-Estt. A—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, Shri S. R. Roy, Regional Controller of Mines, is promoted to the post of Controller of Mines in Indian Bureau of Mines, Jabalpur, w.e.f. 27.11.2015(F.N.).

NOEL DAHANGA  
Administrative Officer  
for Controller General

---

#### BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-85, the 4th December 2015

Ref. No. PD/2(1)(iv)/2014-R-IV/14165—President is pleased to appoint Dr. Ravindra Nagram Chavhan as Scientific Officer/C in the Pay Rs. 15600—39100+5400 (Grade Pay) +NPA in Bhabha Atomic Research Centre in a temporary capacity with effect from the forenoon of 8th July, 2015 until further orders.

M. V. SREEDHARAN  
Dy. Establishment Officer

---

#### DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Navi Mumbai-400703, the 8th December 2015

#### CORRIGENDUM

Ref. No. BRIT/9/178/July/2015/19—The date of promotion of the following Scientific Officer of BRIT to the grade of 'F' may please be read as 21.07.2015 instead of 01.07.2015 (FN) issued vide this Board's Notification No. BRIT/9/17(1)/JULY/2015/12 dated November 14,2015.

1. Dr. Sishir Kumar Sarkar.

P. RAMAKRISHNAN  
Chief Administrative Officer

Mumbai - 400 001. the 2nd December 2015

No.6(2708)/2015-Adm/ 16410—The President is pleased to appoint Shri Mukesh Yadav, Senior Hindi Translator (PB-2 Rs. 9300+34800 with Grade Pay Rs. 4600) HWB(CO), Mumbai as Assistant Director (OL) (PB-3 Rs. 15,600-39,100 with Grade Pay Rs. 5,400), in Department of Atomic Energy Branch Secretariat, New Delhi with effect from the forenoon of 28 September 2015 until further orders.

K.P.S. PILLAI  
Under Secy.

#### RAJA RAMANNA CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLOGY

Indore, the 5th November 2015

No. RRCAT/Admin/2014/R-805/1122—The President of India is pleased to appoint the following Scientific Officer/C (PB:3, Rs. 15600-39100 + Grade Pay Rs. 5400) as Scientific Officer/D (PB:3, Rs. 15600-39100 + Grade Pay Rs. 6600) on promotion with effect from 01.07.2014 (Forenoon) in Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore until further orders :-

| Sr. No. | C.C. No. | Name                          | Division/ Section |
|---------|----------|-------------------------------|-------------------|
| 1       | 467      | Shri Dinesh Kumar Bhatnagar   | CD                |
| 2       | 1849     | Shri Vinod Kumar Maurya       | CD                |
| 3       | 1917     | Kum. Pooja Patheja            | LBA&ID            |
| 4       | 1839     | Shri Rajnish Kumar            | PL&SCD            |
| 5       | 1985     | Shri Harish Kumar Vishwakarma | PS&IAD            |
| 6       | 1841     | Shri Arihant Kumar Jain       | PS&IAD            |
| 7       | 1909     | Shri Shoubhik Chakraborty     | RFSD              |
| 8       | 1217     | Shri Balkrishna Sindal        | UHVTS             |

B.K. JENA  
Chief Administrative Officer

No. RRCAT/Admin/2014/R-805/1123—The President of India is pleased to appoint the following Technical Officer/C (PB:3, Rs. 15600-39100 + Grade Pay Rs. 5400) as Technical Officer/D (PB:3, Rs. 15600-39100 + Grade Pay Rs. 6600) on promotion with effect from 01.07.2014 (Forenoon) in Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore until further orders :-

| Sr. No. | C.C. No. | Name                  | Division/ Section |
|---------|----------|-----------------------|-------------------|
| 1       | 532      | Shri Om Prakash Joshi | ACS               |
| 2       | 1211     | Shri Rishipal         | M&OSS             |

B.K. JENA  
Chief Administrative Officer

No. RRCAT/Admin/2014/R-805/1124—The President of India is pleased to appoint the following Scientific Officer/D (PB:3, Rs. 15600-39100 + Grade Pay Rs. 6600) as Scientific Officer/E (PB:3, Rs. 15600-39100 + Grade Pay Rs. 7600) on promotion with effect from 01.07.2014 (Forenoon) in Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore until further orders :-

| Sr. No. | C.C. No. | Name                 | Division/ Section |
|---------|----------|----------------------|-------------------|
| 1       | 1389     | Shri Sanjay Sharma   | ACD&FS            |
| 2       | 1963     | Shri Sudhir Kumar    | AMTD              |
| 3       | 1704     | Shri Manjeet Ahlawat | AMTD              |

| Sr. No. | C.C. No. | Name                          | Division/ Section |
|---------|----------|-------------------------------|-------------------|
| 4       | 395      | Shri Santosh Kumar Bilaiya    | C&SD              |
| 5       | 723      | Shri J.K. Pattnaik            | CD                |
| 6       | 1680     | Shri Prasanta Kumar Sahani    | IOBD&DD           |
| 7       | 1673     | Shri Pradeep Kumar            | IOBD&DD           |
| 8       | 879      | Shri Lokesh Kumar Babbar      | IOBD&DD           |
| 9       | 1809     | Dr. Soma Banik                | ISUD              |
| 10      | 1706     | Shri Nageswararao Pothana     | ISUD              |
| 11      | 1734     | Shri Hemant Krishna           | LBA&ID            |
| 12      | 1716     | Shri Brijesh Chandra Pant     | LBA&ID            |
| 13      | 1677     | Shri Rohan Bhandare           | LBA&ID            |
| 14      | 1642     | Shri Ayukt Kumar Pathak       | LESD              |
| 15      | 1671     | Shri Amit Kumar Das           | LMPD              |
| 16      | 1887     | Dr. Suman Bagchi              | LPD               |
| 17      | 1731     | Shri Mohammad Tayyab          | LPD               |
| 18      | 1733     | Shri Sachin Kumar Agrawal     | LSES              |
| 19      | 1732     | Shri Chirag Bhai Patidar      | M&AASD            |
| 20      | 1709     | Shri Arup Ratan Jana          | M&AASD            |
| 21      | 1675     | Shri Akhil Patel              | M&AASD            |
| 22      | 1713     | Shri Mahesh Acharya           | PHPMD             |
| 23      | 1776     | Shri Kinsuk Kumar Das         | PL&SCD            |
| 24      | 1737     | Shri Alok Singh               | PS&IAD            |
| 25      | 236      | Shri Samirendu Ray            | PS&IAD            |
| 26      | 1715     | Shri Shailesh Kumar Khamari   | SSLD              |
| 27      | 1578     | Shri S.D.V.S. Jagannadha Raju | SSLD              |
| 28      | 1712     | Shri Dhruvdeep Narwat         | SSLD              |

B.K. JENA  
Chief Administrative Officer

No. RRCAT/Admin/2014/R-805/1125—The President of India is pleased to appoint the following Scientific Officer/C (PB:3, Rs. 15600-39100 + Grade Pay Rs. 5400) as Scientific Officer/D (PB:3, Rs. 15600-39100 + Grade Pay Rs. 6600) on promotion with effect from 02.12.2014 (Forenoon) in Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore until further orders :-

| Sr. No. | C.C. No. | Name                      | Division/ Section |
|---------|----------|---------------------------|-------------------|
| 1       | 1834     | Shri Vineet Kumar Dwivedi | PS&IAD            |

B.K. JENA  
Chief Administrative Officer

No. RRCAT/Admin/2014/R-805/1126—The President of India is pleased to appoint the following Scientific Officer/D (PB:3, Rs. 15600-39100 + Grade Pay Rs. 6600) as Scientific Officer/E (PB:3, Rs. 15600-39100 + Grade Pay

Rs. 7600) on promotion with effect from 04.08.2014 (Forenoon) in Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore until further orders :-

| C.C. No. | Name                  | Division/ Section |
|----------|-----------------------|-------------------|
| 1611     | Smt. Amita Chaturvedi | LMPD              |

B.K. JENA  
Chief Administrative Officer

#### DIRECTORATE OF CONSTRUCTION, SERVICES AND ESTATE MANAGEMENT

Mumbai-400 094, the 9th December 2015

No.DCSEM/A/3(2431)/2015-Rectt./ 1786—The President is pleased to appoint Shri N. Sreekumar, Dy. Controller of Accounts PB-3 (Rs.15600-39100 +Grade Pay Rs.6600) , NFC, Hyderabad as Joint Controller (Finance & Accounts) in Directorate of Construction, Services & Estate Management, Department of Atomic Energy, Mumbai in the Pay Band of PB-3 Rs.15600-39100 + Grade Pay of Rs.7600/- with effect from 23/11/2015 (FN) until further orders.

G.S. KARWADE  
Administrative Officer-III

No.DCSEM/A/9(230)/2015-Rectt./1788—The President is pleased to appoint Smt. Parimala Ganesan, Sr. Accounts Officer (PB-3 Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400), DCSEM as Deputy Controller of Accounts in Directorate of Construction, Services & Estate Management, Department of Atomic Energy in the Pay Band-3 Rs.15600-39100 plus Grade Pay of Rs.6600/- from the forenoon of 01/12/2015 until further orders.

G.S. KARWADE  
Administrative Officer-III

#### ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR EXPLORATION & RESEARCH

Hyderabad-500 016, the 20th November 2015.

No. AMD-4/2/2015-Rectt/2517—The President is pleased to appoint the under mentioned Scientific Officers / Engineers of Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Department of Atomic Energy, by promotion to the post of Scientific Officer-F carrying the Pay Band (PB-4) Rs. 37,400-67,000 + Rs. 8,700 Grade Pay in the same Directorate in an officiating capacity with effect from 1<sup>st</sup> July, 2015, until further orders:

| S.No. | Name<br>S/Shri           |
|-------|--------------------------|
| 1.    | Biplab Chandra Sarkar    |
| 2.    | Ajit Kumar Jain          |
| 3.    | Dr.M.N.Babu              |
| 4.    | Rajeeva Ranjan           |
| 5.    | M.Narasimha Chary        |
| 6.    | Ms.Shaswathi R Choudhary |
| 7.    | Dr. Roopa Bose           |
| 8.    | N.Venkatesh Babu         |
| 9.    | O.P.Sharma               |
| 10.   | Ved Prakash              |

A.S.LAXMAN RAO  
Chief Administrative & Accounts Officer

MINISTRY OF WATER RESOURCES,  
RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION  
(CENTRAL GROUND WATER BOARD)

Faridabad—121 001, the 14th December 2015

No. 3-1820/2015-Min.Estt. 10470—On the recommendation of the DPC and with the approval of the Competent Authority, Sh. Daneswar Lemaya, Senior Stenographer, CGWB, CHQ, Faridabad has been promoted to the post of Private Secretary (Group-B, Gazetted) w.e.f. 10.09.2015 (FN) in the Pay Band-2 and corresponding Pay Scale of Rs. 9300-34800/- with Grade Pay of Rs. 4600/- per month plus usual allowances as applicable under the Rule.

He will be on probation for a period of two years from the date of his joining which can be extended by the Competent Authority at his discretion.

I. S. KARAKOTI  
Senior Administrative Officer

No. 4-3325/2015-Min.Estt. 10471—On the recommendation of the DPC and with the approval of the Competent Authority, Sh. B. K. Dudeja, Senior Stenographer, CGWB, CHQ, Faridabad has been promoted to the post of Private Secretary (Group-B, Gazetted) w.e.f. 16.10.2015 (FN) in the Pay Band-2 and corresponding Pay Scale of Rs. 9300-34800/- with Grade Pay of Rs. 4600/- per month plus usual allowances as applicable under the Rule.

He will be on probation for a period of two years from the date of his joining which can be extended by the Competent Authority at his discretion.

I. S. KARAKOTI  
Senior Administrative Officer

No. 3-1821/2015-Min.Estt. 10472—On the recommendation of the DPC and with the approval of the Competent Authority, Sh. V. B. Rajagopalan, Office Superintendent, CGWB, KR, Trivandrum has been promoted to the post of Administrative Officer (Group-B, Gazetted) w.e.f. 17.09.2015 (FN) in the Pay Band-2 and corresponding Pay Scale of Rs. 9300-34800/- with Grade Pay of Rs. 4800/- per month plus usual allowances as applicable under the Rule.

He will be on probation for a period of two years from the date of his joining which can be extended by the Competent Authority at his discretion.

I. S. KARAKOTI  
Senior Administrative Officer

No. 3-1824/2015-Min.Estt. 10473—On the recommendation of the DPC and with the approval of the Competent Authority, Smt. Gita Passi, Senior Stenographer, CGWB, CHQ, Faridabad has been promoted to the post of Private Secretary (Group-B, Gazetted) w.e.f. 23.09.2015 (FN) in the Pay Band-2 and corresponding Pay Scale of Rs. 9300-34800/- with Grade Pay of Rs. 4600/- per month plus usual allowances as applicable under the Rule.

She will be on probation for a period of two years from the date of her joining which can be extended by the Competent Authority at his discretion.

I. S. KARAKOTI  
Senior Administrative Officer

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS  
(OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES)

In the matter of companies act, 1956 and of the following companies

Jaipur-302001, the 15th December 2015

No.ROC /JPR/560(5)/437—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following companies have this day been struck off from the register and the said companies are dissolved.

| S. No. | Company No. | Company Name                                          |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------|
| 01     | 042030      | Upasna Cements Industries Private Limited             |
| 02     | 022602      | BUDHWAR CONSULTANTS PRIVATE LIMITED                   |
| 03     | 001819      | EVEREST MARBLES PVT LTD                               |
| 04     | 039052      | WHITE LILLY RESORTS PRIVATE LIMITED                   |
| 05     | 046900      | PINK CITY PREMIER LEAGUE PRIVATE LIMITED              |
| 06     | 035777      | TECHNO-FRESH (INDIA) AGRI SOLUTIONS PRIVATE LIMITED   |
| 07     | 042234      | N.S. Technosoft Private Limited                       |
| 08     | 045194      | SHRI GANPATI SUPREME STONES PRIVATE LIMITED           |
| 09     | 041995      | ECSTASY VOYAGE PRIVATE LIMITED                        |
| 10     | 041408      | SHREEJEE CITYPROJECTS PRIVATE LIMITED                 |
| 11     | 004213      | INTRADE EXPORTS PRIVATE LIMITED                       |
| 12     | 027615      | RELY ON STOCKS PRIVATE LIMITED                        |
| 13     | 030777      | MAHALA ISPAT PRIVATE LIMITED                          |
| 14     | 014122      | VIKAS PUMPS PRIVATE LIMITED                           |
| 15     | 030081      | BAIRATHI STOCKNET PRIVATE LIMITED                     |
| 16     | 046196      | SURYAUDAYA ENERGY EXPERTS PRIVATE LIMITED             |
| 17     | 009091      | BHARTI SURVEYORS AND INVESTIGATORS PRIVATE LIMITED    |
| 18     | 027150      | G.N. HOTELS PRIVATE LIMITED                           |
| 19     | 044615      | RAJASTHANI SHOPPING CORPORATION PRIVATE LIMITED       |
| 20     | 017763      | DIVIJ EXPORTS PRIVATE LIMITED                         |
| 21     | 043379      | INDIA EXPEDITION TOUR PRIVATE LIMITED                 |
| 22     | 034252      | SHRI RADHEY GOVIND BUILDING MATERIAL PRIVATE LIMITED  |
| 23     | 025087      | RAJASTHAN RASHTRIYA CHEMICALS AND FERTILIZERS LIMITED |
| 24     | 027464      | DATABYTE INFOTECH PRIVATE LIMITED                     |
| 25     | 042113      | JMG CEMENT PRIVATE LIMITED                            |
| 26     | 045379      | KARMYOGI INFRATECH PRIVATE LIMITED                    |

IMRAN A. SIDDIQUI  
Asstt. Registrar of Companies-cum- Asstt. Official Liquidator  
Rajasthan

In the matter of companies act, 1956 and of the following companies

Bilaspur, the 29th October.2015

NO-ROC-cum-OL-C.G./u/s.560 (5)/ 2015/1495—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (5) of Section 560 of the Companies Act,1956 that the names of the Companies have this day been Struck- off from the Register and the said companies are dissolved.

|    |                         | Annexure-'A'                                                 |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
|    | ROC-cum-OL CHHATTISGARH |                                                              |
|    | CIN                     | COMPANY NAME                                                 |
| 1  | 012080                  | MAYANK FORTUNE INFRA PRIVATE LIMITED                         |
| 2  | 000644                  | FUTURE GENERATION MULTITRADE AND REAL ESTATE PRIVATE LIMITED |
| 3  | 021612                  | RAGHAV SHEET GRIH PRIVATE LIMITED                            |
| 4  | 022598                  | ARITOS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED                          |
| 5  | 022398                  | AVISHKAR TELECOM PRIVATE LIMITED                             |
| 6  | 000409                  | ACCENTURE PHARMA INDIA PRIVATE LIMITED                       |
| 7  | 003774                  | MUNDRA POLYPACK PRIVATE LIMITED                              |
| 8  | 000588                  | INVERSION MULTITRADE & BROKRAGE PRIVATE LIMITED              |
| 9  | 021474                  | THRILL UNLIMITED INDIA PRIVATE LIMITED                       |
| 10 | 000065                  | GRANDIOSE ENTERTAINMENT INDIA PRIVATE LIMITED                |

R. K. SAHU

Registrar of Companies-cum-Official Liquidator, Chhattisgarh

In the matter of companies act, 1956 and of the following companies

Bilaspur, the 10th December 2015

No. ROC/560(5) FTE/2015—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies has this day been struck off from the Register and the said companies are dissolved:-

| S. No. | Company No | Name of the company                              |
|--------|------------|--------------------------------------------------|
| 1      | 018126     | FUTURE ZONE COMPUTER EDUCATION (P) LTD           |
| 2      | 000878     | JVS INFRATECH REALTORS PRIVATE LIMITED           |
| 3      | 022362     | EXTRAVAGANZA ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED       |
| 4      | 021557     | SHRI HARI DIVYA INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED    |
| 5      | 020660     | AMRIT IRON AND MINERALS PRIVATE LIMITED          |
| 6      | 020653     | Jai Raghav Mines and Minerals Private Limited    |
| 7      | 022594     | FIVE STAR INFRASTRUCTURES INDIA PRIVATE LIMITED  |
| 8      | 021483     | Zenith Real Estates & Minerals Private Limited   |
| 9      | 001449     | Reamaging India Food & Beverages Private Limited |

R. K. SAHU

Registrar of Companies-cum-Official Liquidator, Chhattisgarh

In the matter of the Limited Liability Partnership Act, 2008 and of the following LLPs

Kolkata, the 10th December 2015

No.ROC/WB/LLP-75/2015 Notice is hereby given pursuant to under section 75 of the Limited Liability Partnership Act, 2008 read with Rule 37(3) of the LLP Rule, 2009 that the names of the following 2 LLP have on this day been struck off from the Register and the LLPs are dissolved.

| SL NO. | LLPIN    | Name of the LLP               |
|--------|----------|-------------------------------|
| 1      | AAB-4544 | XPANACHE CREATION LLP         |
| 2      | AAA-0458 | SIDKAR GREEN TECHNOLOGIES LLP |

PRANAY CHATURVEDI  
Asstt. Registrar of Companies  
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies  
Kolkata, the 10th December, 2015

No.ROC/WB/FTE/560/2015 Notices is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following 42 Companies have on this day been struck off from the Register and the Companies are dissolved.

|    |                       |                                             |
|----|-----------------------|---------------------------------------------|
| 1  | U40300WB2013PTC193899 | AALTAGEN SOLAR PRIVATE LIMITED              |
| 2  | U70102WB2011PTC159603 | ADITYA K BANGUR PROPERTIES PRIVATE LIMITED  |
| 3  | U74999WB2011PTC169616 | ANGEL TREXIM PRIVATE LIMITED                |
| 4  | U70109WB2008PTC128188 | APOGEE BUILDERS PRIVATE LIMITED             |
| 5  | U45400WB2012PTC188045 | ARSUAN TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED           |
| 6  | U74900WB2012PTC188381 | ASK BUSINESS CONSULTANCY PRIVATE LIMITED    |
| 7  | U70100WB2008PTC125614 | B.U.N.J CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED        |
| 8  | U74999WB2012PTC183736 | BASAR TECHNO DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED    |
| 9  | U24129WB2006PTC111732 | BENGAL COUNTRY FARM ESTATES PRIVATE LIMITED |
| 10 | U80302WB2002PTC094595 | CAD CAM CONCEPTS CALCUTTA PRIVATE LIMITED   |
| 11 | U85191WB2008PTC128298 | CM AMLOZIN CHURNA COMPANY PRIVATE LIMITED   |
| 12 | U51909WB2008PTC124076 | EKDANT TRACOM PRIVATE LIMITED               |
| 13 | U51909WB2013PTC194041 | ENERGITO IMPEX PRIVATE LIMITED              |
| 14 | U74995WB1997PTC082516 | GREEN GOLD CONSULTANTS PRIVATE LIMITED      |
| 15 | U51909WB2010PTC149798 | HARIDWAR VINTRADE PRIVATE LIMITED           |
| 16 | U67120WB1960PLC024904 | INDIAN & GENERAL INVESTMENT TRUST LTD       |
| 17 | U51909WB2012PTC174463 | KAUSHALVANI TRADECOM PRIVATE LIMITED        |
| 18 | U18103WB1957PTC023661 | M P AGARWALLA & CO PVT LTD                  |
| 19 | U45400WB2008PTC126401 | MAHADEO REALCON PRIVATE LIMITED             |
| 20 | U51109WB1951PLC019836 | MARTINS PROCESS INDUSTRIES LTD              |
| 21 | U13209WB2010PTC153935 | MAYUR EXPLORATION INDIA PRIVATE LIMITED     |
| 22 | U74900WB2013PTC198940 | NEWAGE COMMERCIAL PVT.LTD.                  |
| 23 | U74900WB2013PTC198940 | NEWSLIFE PUBLISHING & MEDIA PRIVATE LIMITED |
| 24 | U15122WB2014PTC201630 | NIGHTINGALE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED      |
| 25 | U15510WB2011PTC170886 | NOUVEAAU DISTILLERIES PRIVATE LIMITED       |
| 26 | U52100WB2010PTC146499 | ONKAR TREXIM PRIVATE LIMITED                |

|    |                       |                                                 |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------|
| 27 | U70100WB2010PTC146139 | OVERTOP PLAZZA PRIVATE LIMITED                  |
| 28 | U51909WB1990PTC048567 | PADMAVATHY BUSINESS PVT LTD                     |
| 29 | U70101WB2007PTC117466 | PADMAVATI NIRMAN PRIVATE LIMITED                |
| 30 | U51909WB2006PTC109045 | PANCHMUKHI COMMERCIAL PRIVATE LIMITED           |
| 31 | U51109WB2008PTC122200 | PARAMPITA AGENCIES PRIVATE LIMITED              |
| 32 | U70102WB2014PTC201107 | PRIKAL REAL ESTATES PRIVATE LIMITED             |
| 33 | U51909WB2008PTC131193 | PRIMEROSE TIE-UP PRIVATE LIMITED                |
| 34 | U18109WB2012PTC188558 | PRITY CLOTHINGS PRIVATE LIMITED                 |
| 35 | U74999WB2011PTC162597 | PUJA RICE MILLS PRIVATE LIMITED                 |
| 36 | U51909WB2010PTC141033 | RATNAKAR COMMOTRADE PRIVATE LIMITED             |
| 37 | U52190WB2010PTC153817 | RISHI SUPPLIERS PRIVATE LIMITED                 |
| 38 | U74999WB2012PTC184683 | RITU-ROSHNI PVC PIPES (INDIA) PRIVATE LIMITED   |
| 39 | U45209WB2009PTC134829 | SHREE KATYAYANI INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED  |
| 40 | U24100WB2014PTC204174 | SUPRATIM'S SPECIALITY CHEMICALS PRIVATE LIMITED |
| 41 | U74999WB2011PTC166155 | VELVET CANVAS PRIVATE LIMITED                   |
| 42 | U74900WB2014PTC201769 | WOKA TEA & INDUSTRIES PRIVATE LIMITED           |

SAURABH GAUTAM

Asstt. Registrar of Companies,  
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Puducherry – 605 011, the 16<sup>th</sup> November, 2015

No. 3(161) / 2015–Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved:-

| Sl. No. | CIN                   | Name of the Company                          |
|---------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.      | U74900PY2011PTC002611 | M/s. FABERNASAD RESORTS PRIVATE LIMITED      |
| 2.      | U74140PY2009PTC002336 | M/s. E-INFLEXION PRIVATE LIMITED             |
| 3.      | U74900PY2008PTC002229 | M/s. ORANGE COMPASS VENTURES PRIVATE LIMITED |
| 4.      | U74140PY2010PTC002473 | M/s. FIRST JOB PRIVATE LIMITED               |

C.M. KARL MARX  
Registrar of Companies  
Puducherry

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following Companies

Coimbatore–641005, the 8th December 2015

No. ROC/CBE/ /560(5)/FTE 2015 – Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies have been struck off from the Register of Registrar of Companies and the said Companies stand dissolved:-

| Sl. No | CIN Number            | Name of the Companies                                 |
|--------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| 1      | U05110TZ1981PTC001024 | Sabitha Chandran Traders Private Limited              |
| 2      | U50102TZ1981PTC001025 | Jagadish Chandran Enterprisrs Private Limited         |
| 3      | U65993TZ1986PTC001782 | Saif Investments Private Limited                      |
| 4      | U65993TZ1990PTC002805 | Super Shares and Services Private Limited             |
| 5      | U50200TZ1992PTC004031 | Coimbatore Auto Garage Private Limited                |
| 6      | U05110TZ1993PLC004316 | Vijayeswari Exports Limited                           |
| 7      | U74140TZ1994PLC004796 | Fastforward Management and Financial Services Limited |
| 8      | U72200TZ1995PLC006066 | Internet Appliances and Services Asia Limited         |
| 9      | U72200TZ1995PTC006182 | Goldsun Microsystems Private Limited                  |
| 10     | U18101TZ1995PTC006558 | Sushant Apparels Private Limited                      |
| 11     | U17111TZ1996PTC007598 | Sri Nithyamani Cotton Mills Private Limited           |
| 12     | U03699TZ1996PTC007392 | Sivasakthi Pattern Works Private Limited              |
| 13     | U65992TZ1997PTC007983 | N S S Chit Funds Private Limited                      |
| 14     | U17115TZ2003PTC010602 | P P Weaving Mills Private Limited                     |
| 15     | U17111TZ2003PTC010611 | Orion Polyfab Private Limited                         |
| 16     | U17233TZ2003PTC010735 | Adhisurya Coirs Private Limited                       |
| 17     | U55101TZ2005PTC011580 | Senthilprabhu Hotels Private Limited                  |
| 18     | U17111TZ2006PTC012958 | Adhisurya Textiles (India) Private Limited            |
| 19     | U17111TZ2007PTC013321 | Treasure Tex India Private Limited                    |
| 20     | U25199TZ2007PTC013684 | Charan Speciality Foams Private Limited               |
| 21     | U72200TZ2007PTC013711 | Prolinture Software India Private Limited             |
| 22     | U51909TZ2007PTC013713 | VSJ Marketing Private Limited                         |
| 23     | U72200TZ2007PTC013890 | Limat Soft Technologies India Private Limited         |
| 24     | U52393TZ2008PTC014251 | Alukkas Gold Souk India Private Limited               |
| 25     | U72200TZ2008PTC014413 | Clear Logik Systems India Private Limited             |
| 26     | U74140TZ2008PTC014459 | Selvam Management Consultants Private Limited         |
| 27     | U72200TZ2008PTC014868 | Netoons Software Solutions Private Limited            |
| 28     | U26900TZ2008PTC014940 | Microfine Natural Microns India Private Limited       |
| 29     | U45200TZ2009PTC015379 | Aum Jeya, Ganapathy Builders India Private Limited    |
| 30     | U72200TZ2009PTC015491 | Koral Infomatrix Private Limited                      |
| 31     | U21090TZ2009PTC015511 | Mani Omega Paper Mills Private Limited                |
| 32     | U40108TZ2010PTC015996 | Seshraj Energy Private Limited                        |
| 33     | U63000TZ2010PTC016295 | ANR Logistics Private Limited                         |
| 34     | U70102TZ2010PTC016362 | Akshayaglobal Infrastructures India Private Limited   |
| 35     | U14100TZ2011PTC017262 | Sri Palaniappa Blue Metals Private Limited            |
| 36     | U74999TZ2012PTC018020 | Seer7 Timeless Solutions Private Limited              |
| 37     | U52322TZ2012PTC018230 | Vriddhi Ventures Private Limited                      |

| Sl. No | CIN Number            | Name of the Companies                           |
|--------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| 38     | U72200TZ2012PTC018244 | Edlog Solutions India Private Limited           |
| 39     | U31900TZ2012PTC018540 | Eesa Energy Solutions Private Limited           |
| 40     | U52393TZ2012PTC018793 | RA Gold Jewels India Private Limited            |
| 41     | U70200TZ2012PTC018820 | Pinnacle Prime Properties India Private Limited |
| 42     | U22200TZ2013PTC019766 | Panthera Skanda Media Private Limited           |
| 43     | U35122TZ2013PTC019908 | Element 1 Enterprises India Private limited     |
| 44     | U51909TZ2014PLC020652 | Vaiyam Technologies Limited                     |

JOSEKUTTY V.E  
DEPUTY REGISTRAR OF COMPANIES  
TAMILNADU,

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में  
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2015  
UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.  
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015  
[www.dop.nic.in](http://www.dop.nic.in)